



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3043]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 23, 2016/पौष 2, 1938

No. 3043]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 23, 2016/PAUSA 2, 1938

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 दिसम्बर, 2016

का.आ.4159 (अ).—भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने अधिसूचना सं. का.आ. 2534(अ), तारीख 11 नवंबर, 2011 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) द्वारा प्रत्येक केवल प्रचालक के लिए शहरों/नगरों/क्षेत्रों में उक्त अधिसूचना की सारणी के स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट तारीखों से किसी भी चैनल के कार्यक्रम को डिजिटल संबोधनीय प्रणाली के माध्यम से कूट रूप में प्रसारित या पुनः प्रसारित करना बाध्यकारी बनाया गया था;

केन्द्रीय सरकार ने का. आ. सं.2308 (अ), तारीख 11 सितंबर, 2014 द्वारा उक्त अधिसूचना की सारणी के स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट तारीख को, (i) चरण III के सामने वर्णित शहरों/नगरों/क्षेत्रों के बाबत 30 सितंबर, 2014 से 31 दिसंबर, 2015 और (ii) चरण IV के सामने वर्णित शहरों/नगरों/क्षेत्रों की बाबत 31 दिसंबर, 2014 से 31 दिसंबर, 2016 तक बढ़ा दिया था।

केन्द्रीय सरकार ने, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, उक्त अधिसूचना की सारणी के स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट तारीख को चरण IV के सामने वर्णित शहरों/नगरों/क्षेत्रों के संबंध में 31 दिसम्बर, 2016 से 31 मार्च, 2017 तक और बढ़ाने का विनिश्चय किया है।

अतः, अब केन्द्रीय सरकार, केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 (1995 का 7) की धारा 4क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिसूचना में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

“उक्त अधिसूचना को, सारणी में चरण IV के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “31 मार्च, 2017 प्रविष्टि” रखी जाएगी।

[फा. सं.12/47/2016-डीएस (पार्ट-I)]

के. संजय मूर्ति, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में का. आ. सं. 2534(अ) तारीख 11 नवंबर, 2011 द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात् का. आ. सं. 2308(अ), तारीख 11 सितंबर, 2014 द्वारा उसका संशोधन किया गया।

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd December, 2016

S.O.4159(E).—Whereas, the Government of India in the Ministry of Information and Broadcasting *vide* number S.O. 2534(E), dated the 11th November, 2011 (herein after referred to as the said notification), made it obligatory for every cable operator to transmit or re-transmit programmes of any channel in an encrypted form through a digital addressable system in the cities /towns/areas with effect from the dates specified in column (4) of the table in the said notification;

Whereas, the Central Government *vide* number S.O. 2308 (E), dated the 11th September, 2014, extended the date specified in column (4) of the table of the said notification in respect of the cities/towns/areas mentioned against (i) Phase III from 30th September, 2014 to 31st December, 2015, and (ii) Phase-IV from 31st December, 2014 to 31st December, 2016;

Whereas, the Central Government, on being satisfied that it is necessary so to do in the public interest, has decided to further extend the date specified in column (4) of the table in the said notification in respect of the cities/towns/areas mentioned against Phase-IV, from 31st December, 2016 to 31st March, 2017.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 4A of the Cable Television Networks (Regulation) Act, 1995 (7 of 1995), the Central Government hereby makes the following further amendments in the said notification, namely; —

In the said notification, in the table, for the entry under column (4) occurring against Phase-IV, the entry "31st March, 2017" shall be substituted.

[F. No. 12/47/2016-DAS (Part-I)]

K. SANJAY MURTHY, Jt. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India. Extraordinary, Part II, Section 3, Sub- Section (ii) *vide* number S.O.2534 (E), dated the 11th November, 2011 and subsequently amended *vide* number S.O. 2308 (E), dated the 11th September 2014.